

# इंडोरामा वेंचर्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड

## पर्यावरण नीति

*(निदेशक मंडल की बैठक नं.2 / 2013 दिनांक 22 फरवरी, 2013 के द्वारा अनुमोदित)*

*संशोधन 1*

*(निदेशक मंडल की बैठक नंबर 1/2017, 17 फरवरी, 2017 के द्वारा अनुमोदित)*

टिप्पणी

इस नीति में निहित किसी भी प्रसंग के प्रावधान में यदि किसी भी स्थानीय कानूनों, नियमों और किसी भी संस्था के नियमों के साथ हितसंघर्ष उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में स्थानीय कानून, नियम व विनियम ही मान्य होंगे।

## विषय - सूची

<a href="#">पर्यावरण नीति</a> .....	1
<a href="#">जलवायु परिवर्तन</a> .....	2
<a href="#">जैव विविधता</a> .....	2

## पर्यावरण नीति

इंडोरामा वेंचर्स स्वीकार करता है कि हमारे व्यापार, हमारे कार्यों, कार्यालयों और अन्य गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। हम हमारी गतिविधियों से पर्यावरण पर पड़ रहे किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अपने आपूर्तिकर्ताओं से भी इसी तरह की प्रतिबद्धता का अनुरोध करते हैं।

हम पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने हेतु अपने कर्मचारियों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देते हैं और इस नीति को पूरी तरह लागू करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। हम कंपनी और उद्योग से संबंधित सभी लागू कानूनों का पालन करेंगे और वैधानिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त यथासंभव प्रयास करेंगे।

हम पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए हम हमारे उपकरणों का संधारण सुनिश्चित करेंगे ताकि वे अनुकूलतम क्षमता पर काम करते रहें। हम हमारी प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से हमारे पर्यावरणीय प्रदर्शन और निवेश के प्रतिफल पर निगरानी के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारा पर्यावरण संधारण व उसमें किए गए निवेश प्रभावी हों। हम हमारे प्रासंगिक हितधारकों, गैर-प्रबंधित संचालन और संयुक्त उद्यमों के साथ पर्याप्त वचनबद्धता के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हम अपने हितधारकों व सहयोगियों के साथ मिलकर पर्यावरण की रक्षा करेंगे व पर्यावरणीय मसलों के प्रति समझ को बढ़ावा देंगे और उत्तम अभ्यासों का प्रसार करेंगे। हम पर्यावरणीय प्रभावों के प्रबंधन में लगातार सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसमें यह सम्मिलित है कि हम अपने ठेकेदारों व आपूर्तिकर्ताओं का चयन उनके पर्यावरण प्रदर्शन, प्रशासनिक तरीकों और सामाजिक निष्पादन के आधार पर करें और उसकी लगातार समीक्षा करें। हमारे सहयोगी भी हमारी तरह ही हमारे अनुप्रवाह संचालनों में शामिल हैं जिनमें हमारा लक्ष्य हमारे ग्राहकों के साथ मिलकर प्रचालन से पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना है।

हम नवीनतम अंतरराष्ट्रीय कोड, मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को समकक्ष रखेंगे और इन्हें हमारी कॉर्पोरेट नीतियों, व्यापार निर्णयों, क्रय, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, विकास, और उत्पादों और सेवाओं के वितरण में शामिल करेंगे। हम पर्यावरण परिचालन दक्षता में सुधार, संसाधनों व ऊर्जा की खपत में कटौती के माध्यम से कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के तरीकों का सक्रिय रूप से अन्वेषण करेंगे।

एक सार्वभौम अर्थव्यवस्था को विकसित करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है जो कि सामग्री के पुनर्चक्रण में विश्वास करती है और जो कम पानी, कम ऊर्जा, कम सामग्री की खपत व ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में अग्रणी है। हम हमारी जलवायु परिवर्तन रणनीति और उत्पाद प्रबंधन के माध्यम से इंडोरामा वेंचर्स लिमिटेड के उत्पादों, निर्माण, हैंडलिंग, और परिवहन के डिजाइन में न्यूनतम मूल्यांकन और न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभावों को शामिल करते हैं। इसके अलावा, इंडोरामा वेंचर्स लिमिटेड जैव आधारित उत्पादों के विकास से उत्पन्न पर्यावरण की चुनौतियों के समाधान हेतु सक्रिय रूप से नव परिवर्तन करता है और सार्वभौमिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में हमारी नेतृत्व की भूमिका है।

हम हमारे अपशिष्ट प्रबंधन के सभी मानकों का प्रबल अनुपालन नियामक आवश्यकताओं के अनुसार करते हैं। इसमें नाम, प्रकार, कोड द्वारा (कानून द्वारा अपेक्षित) उचित अपशिष्ट सूची, भंडारण स्थान, परोक्ष परिवहन, उपचार व निपटान, फैक्ट्री में उत्पन्न, जमा किया हुआ व निराकृत अपशिष्ट की मात्रा और बाहर से निराकृत अपशिष्ट की मात्रा सम्मिलित है। हम अपने कचरे का प्रबंधन आवश्यक संभाव्य और वैधानिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त यथासंभव तरीकों से करते रहेंगे हम अपने कचरे को कम करने व कचरे के निपटान में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह हम स्थायी विक्रेताओं के माध्यम से करेंगे जो की कचरे का पुनः उपयोग व सही निपटान करता हो। हम अपने खतरनाक कचरे को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं कि नुकसानदेह कचरे के निपटान का नियंत्रण उचित विक्रेताओं द्वारा किया जाये।

हम अक्षय ऊर्जा, कम ऊर्जा खपत वाली प्रकाश व्यवस्था व ऊर्जा कुशल उपकरणों के उपयोग को लागू करेंगे तथा टेली / वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का उपयोग कर समूह बैठकों के लिए की जाने वाली यात्रा को कम करके हमारे कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे।

हम एक जिम्मेदार पड़ोसी होने के नाते हमारे आसपास के समुदायों के जीवन स्तर के सुधार में सहयोगी रहेंगे। हम फैक्ट्री परिचालन से संबंधित खतरों और आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं के संबंध में स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक प्रभावी तंत्र का निर्माण करेंगे।

हम इस नीति प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित जिम्मेदारियों के साथ पर्यावरणीय मुद्दों के निरीक्षण व आंतरिक प्रबंधन संरचना बनाएंगे। हम पर्यावरण संबंधित प्रदर्शन की निगरानी रखेंगे और सुधार के लिए उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्थापित करेंगे।

हम अपने व्यवसाय को एक स्थायी तरीके से विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने व्यवसाय विलय और अधिग्रहण के लिए पर्यावरण नीति में उल्लेखित सभी मानदंडों व ग्रीनफील्ड विस्तार की योजना को शामिल करेंगे और पर्यावरणीय मुद्दों पर नियमित रूप से रिपोर्ट करेंगे।

## जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन देशों की सरकारों के लिए व्यापक रूप से एक चिंता का विषय बना हुआ है जहां हम काम करते हैं और हम इसमें हर प्रकार से अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए हम अपने कार्यों से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिससे कि राष्ट्रीय रणनीतियों को सहयोग मिले और एक स्थायी व्यवसाय संचालित करने के लिए हमारे हितधारकों के लिए हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप हो।

हमारे जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं में उचित जी.एच.जी. लेखा, जलवायु परिवर्तन जोखिम को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए बदलाव, हितधारकों के साथ वचनबद्धता, सार्वजनिक प्रकटीकरण और हमारे संगठन के भीतर जलवायु परिवर्तन संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए तंत्र भी शामिल है।

हमारी मुख्य जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं में हमारे व्यापार पर संभावित प्रभाव का आकलन, चल रही जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं, जलवायु परिवर्तन नीतियों का विकास, कचरे को कम करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं सहित हमारे प्रमुख हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से काम करना और हमारी प्रगति एक वार्षिक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में प्रकाशित करना है।

## जैव विविधता

हमारी नीति हमारे व्यापार के प्रबंधन और सतत विकास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में जैव विविधता के संरक्षण और प्रसार हेतु हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमारी नीति जहाँ भी संभव हो वहाँ जैव विविधता को बढ़ावा देना है।

तदनुसार, हम हमारी ऐसी संचालित साइटों को महत्वपूर्ण मानते हैं जिनके आस-पास प्रकृति में जीव रहते हैं, ऐसे स्थानों की पर्यावरणीय प्रदूषण से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम संबंधित अधिकारिकताओं और प्रभावित लोगों के साथ जैव विविधता के संरक्षण व प्रबंधन हेतु प्रभावी योजना बना कर काम करेंगे।

जहाँ हम नई साइटें विकसित करते हैं, वहाँ हम निर्दिष्ट क्षेत्रों के संबंध में सभी प्रासंगिक वैधानिक आवश्यकताओं और दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। जहाँ हमें निर्माण करने की आवश्यकता होगी वहाँ हमारा उद्देश्य स्थानीय जैव विविधता नेटवर्क अथवा क्रिया योजनाओं के माध्यम से जैवविविधता को बढ़ावा देना होगा। हम हमारी मौजूदा साइटों में से ऐसी साइटों की पहचान करेंगे जहाँ जैव विविधता को बढ़ाने के लिए संभावनाएं मौजूद हैं और इसके साथ ही स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता को बढ़ावा देने वाली एवं संबंधित अधिकारिकताओं और प्रभावित समूहों के साथ साझेदारी करके उपयुक्त कार्यवाही की योजना बनायेंगे और उन तरीकों की पहचान करेंगे जिनसे हम चयनित योजनाओं के विकास व पहल का समर्थन कर सकें।